

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 सितंबर 2022

### प्रश्न -1

SBI कार्ड ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा कैशबैक-केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?

- A) कैशबैक SBI कार्ड
- B) मदद SBI कार्ड
- C) उपहार SBI कार्ड
- D) वेलकम SBI कार्ड

**सही उत्तर: A**

भारतीय क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड ने भारत में उद्योग का पहला कैशबैक-केंद्रित क्रेडिट कार्ड 'कैशबैक SBI कार्ड' लॉन्च करने की घोषणा की है।

### प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किसे NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) एन. वेणुधर रेड्डी
- B) राजेश कुमार श्रीवास्तव
- C) वसुधा गुप्ता
- D) यमुना कुमार चौबे

**सही उत्तर: D**

नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (NHPC) ने कहा कि उसके निदेशक (तकनीकी) यमुना कुमार चौबे को 1 सितंबर से तीन महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार दिया गया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 सितंबर 2022

### प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है?

- A) एन वेणुधर रेड्डी
- B) राजेश कुमार श्रीवास्तव
- C) वसुधा गुप्ता
- D) यमुना कुमार चौबे

**सही उत्तर: C**

भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉ. वसुधा गुप्ता ने हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का पदभार संभाला है।

### प्रश्न -4

कनाडा के मार्खम शहर ने निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर एक सड़क का नाम रखा?

- A) ए.आर. रहमान
- B) अरिजीत सिंह
- C) जगजीत कौर
- D) लता मंगेशकर

**सही उत्तर: A**

सबसे प्रसिद्ध भारतीय संगीतकारों में से एक ए.आर. रहमान के नाम पर मारखम शहर ने एक सड़क का नाम रखा है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 सितंबर 2022

### प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस वाहन निर्माता ने भारत में 40 वर्ष पूरे कर लिए हैं?

- A) हुंडई मोटर्स
- B) मारुति सुजुकी
- C) स्कोडा ऑटो
- D) टाटा मोटर्स

**सही उत्तर: B**

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने इस साल अपने परिचालन के 40 साल पूरे कर लिए हैं।

### प्रश्न -6

निम्नलिखित में से कौन 'इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी: ए ब्रीफ हिस्ट्री' नामक पुस्तक के लेखक हैं?

- A) विक्रम देव
- B) विजय कृष्णन
- C) पुलाप्रे बालकृष्णन
- D) शिव सुंदरम

**सही उत्तर: C**

अर्थशास्त्री पुलाप्रे बालकृष्णन ने 'इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी: ए ब्रीफ हिस्ट्री' शीर्षक से एक नई किताब लिखी है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 सितंबर 2022

### प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किसने मिस दिवा सुपरनैशनल 2022 का खिताब जीता है?

- A) प्रज्ञा अय्यागरी
- B) पल्लवी सिंह
- C) दिविता राय
- D) आर्य वाल्वेकर

**सही उत्तर: A**

तेलंगाना की प्रज्ञा अय्यागरी को मिस दिवा सुपरनैशनल 2022 का ताज पहनाया गया है।

### प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व नेता मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया है?

- A) यूक्रेन
- B) रूस
- C) पोलैंड
- D) जर्मनी

**सही उत्तर: B**

शीत युद्ध का शांतिपूर्ण अंत करने वाले पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 08 सितंबर 2022

### प्रश्न -9

67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?

- A) शत्रुघ्न सिन्हा
- B) शेखर कपूर
- C) श्याम बेनेगल
- D) सुभाष घई

**सही उत्तर: D**

दिग्गज बॉलीवुड निर्देशक और निर्माता सुभाष घई को 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

### प्रश्न -10

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है?

- A) बेंगलोर
- B) कोलकाता
- C) मुंबई
- D) पुणे

**सही उत्तर: B**

नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता ने अपनी प्रति लाख आबादी पर सबसे कम संज्ञेय अपराधों वाले शहरों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिससे 2021 में महानगर भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है।